

**भाग – III****हरियाणा सरकार**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 6 अप्रैल, 2018

**संख्या सांका०नि०-25/संवि०/अनु० 309/2018.-** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग, मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग, मुख्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1999 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, "खाद्य एवं पूर्ति विभाग" शब्द जहां कहीं भी आएंगे के स्थान पर, "खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"परिशिष्ट ख**

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	जमादार	....	<b>पदोन्नति द्वारा –</b> (i) मिडल पास ; (ii) दफ्तरी के रूप में दो वर्ष का अनुभव । <b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–</b> (i) मिडल पास ; (ii) जमादार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
2.	दफ्तरी	....	<b>पदोन्नति द्वारा –</b> (i) मिडल पास ; (ii) सेवादार, चौकीदार या सफाईकर्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; <b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–</b> (i) मिडल पास या (ii) दफ्तरी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
3.	सेवादर	(i) मिडल पास ; (ii) साईकिल चलाना जानता हो।	<b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–</b> (i) मिडल पास ; (ii) साईकिल चलाना जानता हो; (iii) सेवादार, चौकीदार या सफाईकर्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
4.	चौकीदार	(i) मिडल पास ; (ii) साईकिल चलाना जानता हो।	<b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–</b> (i) मिडल पास ; (ii) साईकिल चलाना जानता हो ; (iii) चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
5.	सफाईकर्ता	(i) मिडल पास ;	<b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–</b> (i) मिडल पास ; (ii) सफाईकर्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

राम निवास,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

(Authorised English Translation)

**HARYANA GOVERNMENT****FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT****Notification**

The 6th April, 2018

**No. G.S.R. 25/Const./Art. 309/2018.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Food and Supplies Department Headquarters (Group D) Service Rules, 1999, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Food and Supplies Department Headquarters (Group D) Service (Amendment), Rules, 2018.
2. In the Haryana Food and Supplies Department Headquarters (Group D) Service Rules, 1999 (hereinafter called the said rules) for the words “Food and Supplies Department”, Wherever occurring, the words and sign “Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 5, for the figure “35”, the words and sign “forty-two” shall be substituted.
4. In the said rules, for Appendix B, the following Appendix shall be substituted, namely:—

**“APPENDIX B**

(See rule 7)

Serial number	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Jamadar	---	By promotion- (i) Middle pass; (ii) Two years experience as Daftri. By transfer or deputation: (i) Middle pass; (ii) Three years experience as Jamadar.
2.	Daftri	---	By promotion- (i) Middle pass; (ii) Two years experience as Peon, Chowkidar or Sweeper. By transfer or deputation: (i) Middle pass; (ii) Three years experience as Daftri.
3.	Peon	(i) Middle Pass; (ii) Should know cycling	By transfer or deputation: (i) Middle pass; (ii) Should know cycling; (iii) Two years experience as Peon, Chowkidar or Sweeper.
4.	Chowkidar	(i) Middle Pass; (ii) Should know cycling	By transfer or deputation: (i) Middle pass; (ii) Should know cycling; (iii) Two years experience as Chowkidar.
5.	Sweeper	(i) Middle Pass.	By transfer or deputation: (i) Middle pass; (ii) Two years experience as Sweeper.”.

RAM NIWAS,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.